MOHINDRA FASTENERS LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC064215

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087



Website: www.mohindra.asia Email id: cs@mohindra.asia Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11-46200444

To,

The Head Listing & Compliance Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (MSEI) Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C-62, G-Block Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai -400098

Ref:- Symbol- MFL, Series - BE

Subject: <u>Submission of copies of Newspaper advertisement w.r.t.</u> Notice of 26th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure.

Dear Sir/Madam,

In continuation of our earlier intimation of 26th AGM of the company dated 02.09.2020 and Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we attach herewith a copies of Newspaper advertisements published on 04.09.2020 in the "The Financial Express" and "Jansatta (Hindi)" with respect to completion of dispatch of 26th Notice & Annual Report for the FY 2019-20 through emails only and Book Closure & e-voting information relating to the ensuing Annual General Meeting.

The newspaper publications are also available on the website of the company i.e. <u>www.mohindra.asia</u>.

Kindly take the above information on your record.

Thanking you,

Yours truly,

For and on behalf of Mohindra Fasteners Limited

Nidhi Pathak)

Company Secretary & Compliance Officer

Date: 04.09.2020 Place: Delhi of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

into a Private Limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 31st August, 2020 to enable the company to give effect for such

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change /status of the company, may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pt Deen Dayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office address mentioned below :-CELEBRATION GARDENS, NH-8 GURGAON

ROAD, NEAR SHIV MURTI NEW DELHI-110037 For & on behalf of Applicant SUREFIN INDIA LIMITED **PAMMI KAUR**

Date: 04.09.2020 Place: New Delhi

the Company, viz., www.tigerlogistics.in

2020 in view of COVID-19 pandemic.

support of the address of the Shareholder.

Pvt. Ltd at bssdelhi@bigshareonline.com

RAGHAV

PRODUCTIVITY

ENHANCERS LTD.

Date: 03.09.2020

Place: New Delhi

DIN: 00381428

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED

CIN-L74899DL2000PLC105817

Regd. & Corporate Office: D-174, GF, Okhla Industrial Area, Phase-1,

New Delhi-110020.

Tel.: 011-47351111 Fax.: 011-2622 9671

Website: www.tigerlogistics.in, Email.: tlogs@tigerlogistics.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given that the 20th Annual General Meeting ("AGM") of the

Shareholders of Tiger Logistics Inida Limited ("the Company") will be held on September

29th, 2020 at 01.00 PM. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means

("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which will be e-

mailed to the Shareholders separately and also will be made available on the website of

Kindly note that Ministry of Corporate Affairs (vide General Circular no. 20/2020 dated

05.05.2020) and SEBI (vide Circular dated 12.05.2020) have granted exemption from

dispatching physical copies Notices and annual report to shareholders and also allowed

conducting Annual General Meetings (AGM) through electronic mode during the year

Manner of registering/updating their E-mail ID: Shareholders who have still not

Shareholders holding Shares in Physical Mode: Shareholders holding shares in

physical mode and who have not updated their email address are requested to update their

email address by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz.

Big Share Services Pvt. Ltd at bssdelhi@bigshareonline.com, along with the copy of the l

signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, scanned copy

of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card, and self-

attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport) in

2. Shareholders holding Shares in Dematerialized Mode: Shareholders are requested to

register their e-mail ID with the relevant Depository Participant(s). In case of any gueries

difficulties in registering the e-mail address. Shareholders may write to Big Share Services

Tel & Fax: 0141-2235760/761, E-mail: rammingmass@gmail.com, Website: www.rammingmass.com

INFORMATION REGARDING 11th ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 11th Annual General Meeting ("AGM")of the Members of Raghav Productivity

Enhancers Limited("The Company") will be held at 3:00 P.M. on Wednesday, 30th

September 2020 through Video Conferencing ("VC") and audio Visual Means ("OAVM") in

compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 14/2020 dated April 08

2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of

Corporate Affairs, Government of India (hereinafter collectively referred to as "MCA

Circulars"), the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1.

CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India

In pursuance of the MCA Circulars and SEBI circular, Notice of AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 ("Annual Report 2019-20"), will be sent only

through email to those members whose email address are registered with the Company

These documents will also be available on the Website of the company a

The Company is providing to its members a facility to exercise their right to vote on

resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means ("E-Voting") and

the Business set out in the notice of AGM may be transacted through E-voting . The

company has engaged CDSL to provide the facility of remote E-voting to the members and facility of the E-Voting to the members participating in the AGM through VC/OAVM through

the CDSL E-Voting System. Members can access the same at www.evotingindia.com

under shareholder/member login by using remote E-Voting credentials. The process and

manner of remote E-Voting, attending the AGM through VC/OAVM and E-Voting during

Members holding shares in physical form who have not registered their email id with the

Company/Depositories may obtain Annual Report and user id and password for e-voting

For Physical shareholders- please provide necessary details like folio no, name of

shareholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self attested), Aadhar

(self attested) by e-mail to the Company at cs@rammingmass.com or to Registrar and

For Demat shareholders:- please provide Demat Account Details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID+ CLID), Name, client master or copy of consolidated

Account statement, PAN (self attested copy of PAN) Aadhar (self attested) by e-mail to the

Company at cs@rammingmass.com or to Registrar and Transfer Agent at

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485)

Regd. Office-9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi-110006

Tel. No.-011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com

Website- www.neccgroup.com

NOTICE

In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs

(MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8,

2020 & circular dated April, 13th 2020 permitted the holding of AGM through

Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

upcoming AGM of the Company will be held on September 29, 2020 at 11.00

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for

the FY 2019-2020 has to be sent only by electronic mode to those Members

whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The

Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its

If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along with Annual Report for the FY 2019-2020 and login details for e-

voting shall be sent to your registered email address. In case you have not

registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below

instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for the FY

Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the

Holding Company, MAS Services Limited at info@masserv.com

providing Folio number. Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self

attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested

Please send your bank details with original cancelled cheque to

our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla Industrial

Area phase-II, New Delhi 110020 along with letter mentioning folio

Please contact your Depositary Participant (DP) and register

Please also update your bank detail with your DP for dividend

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 05/09/2020

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 05/09/2020

your email address as per the process advised by DP.

The Notice of AGM and Annual Report for the FY 2019-2020 will also be

available on Company's website at www.neccgroup.com and website of BSE

at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Members attending

the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum

payment by NACH if declare by company.

scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

("SEBI Circular"), to transact the business as set out in the notice of AGM.

www.rammingmass.com and stock exchange at www.bseindia.com

AGM, has been provided in the notice of AGM.

Transfer Agent at ujata@bigshareonline.com

by providing necessary details:

ujata@bigshareonline.com

Date: 03 September, 2020

A.M. through VC/OAVM.

Holding

Place : Delhi

Members similar to earlier practices.

2019-2020 and login details for e-voting.

no. if not registered already.)

under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Place: Jaipur

For Tiger Logistics (India) Limited

Managing Director (DIN-00147977)

A-10 Central Spine, Alankar Plaza,

Vidhyadhar Nagar, Jaipur-302023

CIN: L27109RJ2009PLC030511

Reg. Office: Office No.36,

Harpreet Singh Malhotra

By order of Board

Neha Rath

For Raghav Productivity Enhancers Limited

(Company Secretary) ACS:38807

registered their e-mail ID are requested to get their e-mail ID registered, as follows:

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-23354802 Email Id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

Unaudited Financial Results for the First guarter ended 30th June, 2020.

For R R Financial Consultants Limited Place: New Delhi Rajat Prasad Managing Director Dated: 03rd September, 2020

Notice is hereby given that pursuant to Reg. 29 of SEBI Listing Regulations 2015, (LODR), we

are pleased to inform you that a meeting of the Board of Directors will be held on Thursday, 10th

September, 2020 at 12:00 p.m at the registered office of the Company for considering the

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. Regd Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) 482001 CIN: L24231MP1979PLC049375

Notice is hereby given that the 4th meeting of the Board of Directors for the Financial Year 2020-21 (04/2020-21) of the Company will be held on Thursday, 10th Day of September 2020, at 17:00, through Audio Visual means, interalia, to consider, approve and take on record Statement of Unaudited Results

June 2020 and pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, NSE Circular No. NSE /CML/2019/11 and BSE Circular No. LIST/COMP/01/2019-20 dated 2nd April, 2019, the trading window in respect of the Company's securities remain closed for designated persons, their immediate relatives and the persons with whom they have material financial relationship. The trading window will open after 48 hours of declaration of financial results for

Company Secretary

INCEPTUM ENTERPRISES LIMITED

of Directors of the company will be held on Friday. 11th September, 2020 at the Registered Office of the company to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2020, pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. A copy of the said notice shall also available at the Company's website at www.angelsenter.com and

Regd Office No:11 Wood Villa 2nd Avenue. Bandh Road Chandan Haula. New Delhi-110074 CIN:L65910DL1990PLC041750 NOTICE

Finex Limited, 30th Annual General Meeting will be held at 11, Wood Villa, 2nd Avenue, Bandh Road, Chandan Haula New Delhi-110074. India on wednesday, 30th, September 2020 at 10:00 AM. to transact the business mentioned in the notice convening the said Annual General Meeting is being posted to the members individually at their registered addresses A Member entitled to attend and vote

vote instead of himself and a proxy need not be a member Notice is hereby given pursuant to section- 91 of the companies act, 2013, that the register of members and the share Transfer books of the Company will remain Closed from 20th September to 28 September 2020 (both days inclusive) For Tinna Finex Limited

Place : Delhi **VIJAY SHEKHRI**

Place: New Delhi Date: 4th Sep 2020 **Director** STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED

Regd. Office: Office No-103, 1st Floor, Plot No.2. Triveni Complex, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi - 110092 Email id: edynamicssolutions@yahoo.com

Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the company will be held on Friday, 11" September, 2020 at the Registered Office of the company to consider and approve the Unaudited Financial Results for the Quarter ende 30th June, 2020, Pursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015.

SATENDER KUMAR Date: 03.09.2020 Vikas Saini DIRECTOR Place : New Delhi

CIN: L74899DL1985PLC020194

Reg. Office: 4883-84, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Dag Chandni Chowk, Delhi-110006 Email:amarnath01finance@gmail.com, Tel: 011-23953204/23392222 Website: www.sriamarnathfinance.in

NOTICE OF THE 35TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE

at 10:00 A.M. at A-73/1, G T KARNAL ROAD, INDUSTRIAL AREA, DELHI-110052 to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2019-20 on September 03, 2020 through electronic mode to the members whose 'email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for Financial Year 2019-20 is available and can be downloaded from the Company's website (www.sriamarnathfinance.in)

statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes or all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting provided by NSDL. The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, 22nd September, 2020 ("Cut-off date"). The remote E-Voting period commences on Friday, 25th September, 2020 (9:00 am) and

ends on Sunday, 27th September, 2020 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling pape shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast thei vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open

for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day. Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, 22nd September, 2020 to Monday, 28th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 35th AGM of 'the Company. 'Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch

of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by th the AGM on the website of the Company viz www.sriamarnathfinance.in, website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL viz www.evoting.nsdl.com. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM Members are also informed that In case of any gueries, members may refer the "Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members" available at the 'Downloads section of www.evoting.nsdl.com. For any further grievance related to the remote e-voting members may call on the toll free no. 1800222990 or contact Ms. Pallavi Mhatre Assistant Manager, NSDL, Trade World, 'A' wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013 at the designated e-mail ids: evoting@nsdl.co.in or AmanG@nsdl.co.in or at telephone no. 022-24994545/ 1800-222-990,

> Rakesh Kapoor (Managing Director

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

FINANCIAL EXPRESS

CIN: L74899DL1995PLC064215 Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia, Email id: cs@mohindra.asia, Phone: +91-11-46200400, 46200401 Fax: +91-11-46200444 NOTICE OF THE 26[™]ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & E-VOTING AND

BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that:

29"September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing 'VC'/ Other Audio Visual Means 'OAVM' to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM, without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and Listing Regulations, 2015 read with MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and the SEBI Circular dated May 12, 2020. In compliance with the MCA & SEBI Circulars, the Electronic Copies of Notice of the AGM along with Annual Report for 2019-20 have been sent to the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/Share Transfe Agent. Members of the Company holding shares either in

physical form or in Dematerialized forms as on Benpose date i.e. Friday 28th August, 2020 have been

received the Annual Report along with notice of 26" AGM for the financial year 2019-20 through email

only. The same is also available on the website of the Company at www.mohindra.asia, website of the

1. The 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday,

Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in and website of the NSDL www.evoting.nsdl.com. The members can attend and participate at the ensuing AGM through VC/OAVM on the virtual platform provided by RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited and the instructions to participate/join the AGM and the manner of casting the votes through Remote E-voting and Voting during the AGM will be provided in the Notice. Members are requested to kindly view the same. 3. Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and subsequent amendments thereto and SEBI(LODR) Regulations, 2015, all the Members are hereby informed that a

person whose name is registered as member and are holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date Tuesday, September 22, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM or vote through e-voting system available during the AGM on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). Members may note the following information: Date of completion of sending of Annual Report to the September 03, 2020 (Thursday)

members including the Notice of AGM through email only The Cut-off date & Record date for determining the September 22, 2020 (Tuesday)

eligibility of the members to vote electronically and for final dividend if any declared at the 26" AGM. Date and time of commencement of remote e-voting From 09:00 A.M. September 24, 2020 (Thursday) Date and time of end of remote e-voting Upto 05:00 P.M. September 28, 2020 (Monday)

and once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have casted their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system during the AGM 5. Members who have acquired shares and becomes a member of the Company after sending of the Notice and

The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the above mentioned date and time for voting

the Annual Report through electronic mode and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2020(Tuesday), may obtain the Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in / compliances@skylinerta.com by mentioning their folio no./Dp id & Client id. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. The Company has appointed Mr. Anand Kumar Singh, Partner of M/s Anand Nimesh & Associates, Practicing.

Company Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the process of remote e-voting or e-voting during the AGM in a fair and transparent manner. 7. In case of any queries related to remote e-voting / e-voting, the members may refer to the Frequently Asked

Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact Pallavi Mhatre, Manager NSDL, 4" Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Email address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in, toll free no.: 1800-222-990 or to Company Secretary of the company at 304 Gupta Arcade, Inder Enclave Delhi-Rohtak Road, New Delhi-110087, contact at 011-46200400 or email address: cs@mohindra.asia_or to Company's RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limitedat +91- 11-

40450193-97 or email address: compliances@skylinerta.com. 8. NOTICE IS FURTHER given pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from Wednesday, September23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (both days Inclusive) for the 26"AGM of the Company.

> By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited Nidhi Pathak

Date: 03.09.2020 Place : New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

Registered Office: 8/28, WEA ABDUL AZIZ ROAD, KAROL BAGH, NEW DELHI-110005

CIN: L74899DL1987PLC027057 Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and three Months ended 30th June, 2020

Date: 03.09.2020

(Rs. in Lakh, except per share data) **Quarter Ended**

Particulars	3 Months Ended	Preceeding 3 Months Ended	Preceeding 3 Months Ended in the Previous Year	Year ended
	01.04.2020	01.01.2020	01.04.2019	01.04.2019
	То	То	То	То
	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Unaudited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
Income				
Revenue from Operations				
(i) Interest Income	9.29	4.07	10.84	36.47
(ii) Fees and Commission Income	0	0	0	0
I. Total Revenue from Operations				
II. Other Income		4.07	40.04	20.47
III. Total Income (I+II)	9.29	4.07	10.84	36.47
Expenses (i) Finance Costs	2.52	2.31	2.32	9.26
(ii) Fees and Commission Expenses	2.02	2.01	2.02	5.20
(iii) Purchase of stock in trade		_		_
(iv) Changes in inventories of finished goods work in				
progress and stock-in-trade	_	_		-
(v) Net Loss or derecognition of Financial Instrument	-	-	-	-
(vi) Impairment of Financial Instruments	-	-	-	-
(vii) Employee Benefits Expense	3.01	3.05	2.41	11.27
(viii) Depriciation and Amortisation Expense	-	-	-	-
(ix) Other Expenses (Any item exceeding 10% of the total				
expenses relating to continuing operations to be shown				
separately)	0.61	5.05	2.81	12.85
IV. Total Expenses	6.14	10.41	7.54	33.38
V. Profit/(Loss) before exceptional items and tax (III-IV)	3.15	(6.34)	3.30	3.09
VI. Exceptional items VII. Profit/(Loss) before Tax (V-VI)	-	(6.34)	3.30	3.09
VIII. Tax Expense:		(0.34)	3.30	3.09
(i) Current Tax	0.82	(1.69)	0.86	0.76
(ii) Deferred Tax(Net)	0.02	(1.00)	0.00	-
IX. Profit/(Loss) for the period from continuing				
operations (VII-VIII)	2.33	(4.65)	2.44	2.33
X. Profit/(Loss) from discontinued operations	-	· · ·	-	-
XI. Tax Expenses from discontinued operations	-	-	-	-
XII. Profit/(Loss) from discontinued operations				
(after tax) (X-XI)	-	-		-
XIII. Net Profit/(Loss) for the period (IX+XII)	2.33	(4.65)	2.44	2.33
Other Comprehensive Income				
A. Items that will not be reclassified to profit or loss	-	-	-	-
(i) Reimbursement Gain /(Loss) of the Defined Benefit Plan	-	-	-	-
(ii) Net Gain on equity Instrument designated at FVOCI for				
the year (iii) Income tax relating to items that will not be reclassified		_	·	
to profit or loss		_		_
B. Items that will be reclassified to profit or loss.	_	_		_
(I) Income Tax relating to items that will be reclassified to				
profit or loss	-	-	-	-
XIV. Total other Comprehensive income (A+B)		-		-
XV. Total Comprehensive income (XIII+XIV)	2.33	(4.65)	2.44	2.33
Non Controlling Interest				-
XVI. Net Profit/(Loss) after Tax and Minority Interest	2.33	(4.65)	2.44	2.33
XVII. Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each	400.01	400.01	400.01	400.01
XVIII. Other Equity				4.25
XIX. Earnings Per Share (EPS) on Face Value Rs. 10/-	0.05	0.15	0.06	0.06

Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing facility to its members to exercise their right to vote by electronic means in respect of the agenda items enlisted in the AGM Notice through remote e-voting facilities provided by R&TA https://instavote.linkintime.co.in. The remote e-voting period commences on Sunday, 27th September, 2020 (IST 9.00 a.m.) and ends on Tuesday, 29th September, 2020 (IST 5.00 p.m.). The remote e-voting module shall be disabled by R&TA for voting thereafter and shall not be allowed beyond said date and time. During this intervening period, only those members of the Company, holding shares either in electronic or physical mode, as on the cut-off date i.e. Wednesday, 23th September, 2020, shall be entitled to cast their vote electronically through remote e-voting or voting in the said AGM by attending the AGM on Wednesday 30th September, 2020 at 11 A.M. through VC/OAVM i.e. instameet https://instameet.linkintime.co.in. The procedure of e-voting and instruction for process and manner for attending AGM through instameet has been

mentioned in the Notice of AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at A.G.M. Once a vote on a resolution is cast by the member through remote e-voting, the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available at the link https://instavote.linkintime.co.in

issues regarding remote e-voting, please refer the e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under

Members already registered with R&TA for e-voting, their existing login ID and password is to be used for e-voting. Persons who have acquired shares and become members of the Company after the despatch of notice and holding

shares of the Company as on cut-off date; may contact https://instavote.linkintime.co.in for obtaining login ID and password. For any grievances / queries regarding e-voting members may contact R&TA e-voting helpdesk at https://instavote.linkintime.co.in or to our R&TA at enotices@linkintime.co.in or Mr. Swapan Naskar, AVP(North India Operation) at 022-491860000 (Address: M/s Link Intime India Pvt. Ltd. Noble Heights, 1" Floor, NH-2, C1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi-110 058). Shri Surrinder Kishore Kapahi, Practising Company Secretary (Membership No. 1407 and CP No. 1118), New Delhi has been appointed as Scrutinizer for conducting remote e-voting and e-voting at the A.G.M. in fair and transparent manner. Members who have not yet registered their e-mail id or who want to change their e-mail ID are requested to approach their respective DPs. Member(s) are requested to keep their e-mail ID validated with their DP/R&TA, so as to receive all

Attention of the members is drawn to Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated 20/04/2018, which require shareholders holding shares in physical form

and whose folio(s) do not have complete details relating to their PAN and bank account, or where there is any change in the bank account details provided earlier, to compulsorily furnish the details to R&TA/Company for The Shareholders who are holding shares in Physical form are requested to dematerialise their Physical Shareholdings.

For Ansal Buildwell Ltd.

Sd/-

Mamta Bisht Company Secretary & Compliance Officer

For North Eastern Carrying Corporation Limited

on 3rd September 2020. The Statutory Auditor of the Company have provided Limited Review Report for the same.

Date:03.09.2020

Place: New Delhi

(a) Basic

Notes:

(b) Diluted

2- Figures of previous periods were re-grouped/re-classified wherever necessary 3- Indian Accounting Standards are applicable on the Company w.e.f 1st April 2019. 4-The Company has consider the possible effects of COVID-19 on the carrying amounts of Property, Plant and Equipment, Investments Inventories, Trade Receivable and Other Current Assets. In developing the assumptions relating to the possible future

1- The above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their meeting held

0.05

0.05

0.15

0.15

uncertaintiestihne economic conditions because of this pandemic, the company, as at the date of approval of the financial results, has used external and internal sources of information/ indicators to estimate the future performance of the Company. Based on current estimates the Company expects the carrying amount of these assets to be recovered. The impact off ithe COVID-19 on the Company's financial results may differ from that estimated as at the date of approval of these results. On Behalf of the Board For Standard Capital Markets Limited]

Kishore Kargeti

0.06

0.06

(Director) Date: 03.09.2020 DIN:00095763

Place: New Delhi

0.06

0.06

BUILOWELL

Date : 04.09.2020 financialexp.ep

NOTICE

for the Quarter ended 30th June, 2020 and other business matters. Further in continuation of our intimation on closure of trading window Dated 30th

the Quarter ended 30th June, 2020. For Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd

Place: Jabalpur Amit Kumar Jain Date: 03.09.2020

Regd. Office: Office No. JF-01, Property No. F-40, Jagat Puri, Delhi - 110040, Email Id: angelsenterpriseslimited@yahoo.com CIN: L51909DL1990PLC042445 Notice is hereby given that a Meeting of the Board

on stock Exchange website at www.bseindia.com

Place: New Delhi

Notice is hereby given that the Tinna

For Inceptum Enterprises Limited VINAYA PRAKASH DIRECTOR

Tinna Finex Limited

entitled to appoint a proxy to attend and

EDYNAMICS SOLUTIONS LIMITED MONEYTECH FINLEASE LIMITED Regd. Office: 829/2, Laxmideep Building 8th Floor, District Centre, next to V3S Mal Laxmi Nagar, New Delhi -110092 CIN: L65910DL1984PLC018732 Email id: moneytechfinlease@gmail.com

isting Obligations and Disclosures Requirement)

& www.cse-india.com.

DATE: 03.09.2020

PLACE : DELHI

FRIDAY, SEPTEMBER 4, 2020

ursuant to Regulation 47(1)(a) of the SEBI egulations, 2015, Notice is hereby given that the Board Meeting of the Company will be held on Friday 11th September, 2020 at the Registered

CIN: L74900DL2000PLC106755 Office of the company at 829/2, Laxmideep sulding, 8th Floor, District Centre, next to V3S Mall, Laxmi Nagar New Delhi -110092 to consider and approve the Unaudited Financial Results for he guarter ended 30° June . 2020.

A copy of the said notice shall also available at the A copy of the said notice shall also be available at Company's website at www.edynamicssolution.com the company's website at www.moneytechfin.com and on stock Exchange website at and on stock Exchange website at www.msei.in www.bseindia.com For Edynamics Solutions Limited MONEYTECH FINLEASE LIMITED

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

NOTICE is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the Members of SR AMARNATH FINANCE LIMITED will be held on Monday, 28th day of September, 2020

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Th Companies (Management & Administration) Rules, 2014("the Rules') including any

of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members Depositories as on cut-off date ie. 22nd September, 2020 can view the notice convening

For SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

AN ISO 9001: 2008 CEPTIFIED CONTINUED. Year ended

CIN No.: L45201DL1983PLCO17225 Regd. Office: 118, Upper First Floor, Prakash Deep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi-110 001 Ph.: +91-11-23353051, 23353052, Fax: +91-11-23310639, 23359550 E-mail: info@ansalabl.com, Website: www.ansalabl.com

NOTICE OF THE 36™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 36" Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on

Wednesday, 30th September, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular No. 20/2020, 14/2020, 17/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P02020/79 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as Circular), companies are allowed to hold AGMs through VC, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC to transact the business as set out in the Notice of the AGM dated June, 29, 2020. Annual Report (AR) for the year 2019-2020, inter-alia, containing the Notice of the AGM setting out the business to be transacted thereat and Audited Financial Statements (including Consolidated Financial Statements) of the Company for the Financial Year ended 31" March, 2020 and the Report of Auditors and Directors Report has been sent to the members of the Company through electronic mode via e-mail whose e-mail ID is validated/registered with the Depository Participant (DP) or M/s Link Intime India (P) Ltd. (R&TA) and through permitted mode to other members at their registered addresses. The full text of Notice of the meeting and above documents is also displayed on the websites of the Company i.e. www.ansalabl.com and R &TAM/s Link Intime India Private Ltd. https://instavote.linkintime.co.in and can be inspected at the Registered Office of the Company on all working days (excluding Saturdays and Public Holidays) during business hours. Any member who wishes to have physical copy of the Annual Report and who have not received the same, may write to the Company. The despatch of Notice of A.G.M. and Annual Report has been completed on 3" September, 2020.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (the 'Rules') and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015 (SEBI Regulations) Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday the 24" September, 2020 to Wednesday, 30"September, 2020 (both days inclusive) to determine the entitlements of Members to attend the above A.G.M. In compliance with the provisions of Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Section 108 of the

Members are requested to refer to instructions for remote e-voting forming part of AGM Notice. In case of any queries or

communication electronically including annual report, notices, circulars, etc. sent by the Company from time to time.

registration/updation. No request for transfer of shares in Physical form (except in case of transmission or transposition of securities) can be

processed by the Company/R &TA in view of SEBI Circular.

New Delhi

(Ashok Babu) Sr. V.P. & Company Secretary FCS No.: 2328

एमसन्स् अपेरेल्स लिमिटेड पंजीकृतं कार्यालय : ऑफिस नं, 303, दूसरा नोंट नं. 13-ए, वीर काम्प्लेक्स वीर सावरकर CIN: U74899CL2003PLC122266 साइट : www.amsonsapparels.com, ई मेल आई डी : amsonsappareis@yahoo.com

नददारा सचित किया जाता है कि कम्पनी की 17वा विष्कृति सुवित वैतक (एजीएम) **शनिवार, 26** सितम्बर, 2020 को प्रात : 8:00 बजे खसरा नं. 4/11, विलेज मलिकपूर जेर तहसील नजफगद दिल्ली-110043 निर्धारित कामकाज का निष्पादन किया जाएँगा। कथित सुचना के साथ प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची और निर्देशकों की रिपोर्ट लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण से शामिल वार्षिक रिपोर्ट 01 सितम्बर, 2020 को सभी सदस्यों के पंजीकृत पत् या ई-मेल आईडी पर मेज दी गई हैं ये कम्पनी www.amsonsapparels.com पर भी उपलब्ध हैं तथा एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज विपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई 'रिमोट ई-वोटिंग' के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का लपयोग करके एजीएम में सचन में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 23 सितम्बर, 2020 (प्रात : 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और 25 सितम्बर, 2020 (सायं 5.00 बजे) बद होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा -वो<u>टिं</u>ग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। **शुक्रवार,** 25 सितम्बर, 2020 को (साय 5.00) बज व्यवसाय घंटों की समाप्ति के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अवधि 19 सितम्बर, 2020 (कट-ऑफ तिथि) को कम्पुनी की प्रदल इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपातिकें होगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का सबस्य है, वह रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम में मतदान द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना बोट देने के लिए योग्य है।

सविधा प्रदान की जाती है और ऐसी वोटिंग के माध्यम

सभी कामकाज निष्पादित किये जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है और एजीएम की सुधना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम की सुचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेजकर लॉगइन आईडी एवे पासवर्ड प्राप्त करें सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए अपने वर्तमान युजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने पुविचा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होंने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-थोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएन में अपना बोट देने के पात्र होंगे। रिनोट -वॉटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर हेल्प सैवशन के अंतर्गत

उपलब्ध अवसर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और -वोटिंग मैनुअले का अवलोकन कर सकते -मेल : evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं या द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नं 1800222990 पर सम्पर्क कर सकते हैं या श्री नितिन एमबुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड-ए विंग, कमला मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं। किसी भी शिकायत / समस्या के लिए सदस्यगण मै सर्स बीटल फाइने शियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के रजिस्टार

युक 22 सितम्बर, 2020 से 25 सितम्बर, 2020तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का हकदार व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी/अधिकृत बगर्ने कि रामी पालगी के लिए निर्धारित पारूप / बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने के लिए व्यक्ति द्वारा विधियत सत्यापित प्रॉक्सी फार्म बैठक से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकत कार्यालय में जमा किया गया

बोर्ड की आज्ञानुसार एमसन्स अपेरेल्स लिमिटेड दिनांक : 03.09.2020 अगस्टीन ककाप स्थान : नई दिल्ली निदेशक

माध्यम से आयोजित की जाएगी।

https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध होगी।

प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी।

स्थानः ग्रेटर नोएडा

A.M. through VC/OAVM.

Members similar to earlier practices.

2019-2020 and login details for e-voting.

विचि: 03.09.2020

उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जाएगी।

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड

CIN: L32109DL2003PLC119416

पंजी. कार्यालयः ढीटीजे209, 2 पलोर, ढीएलएफ टॉवर-बी, जसोला, नई दिल्ली-110025

कार्पोरेट कार्यालय, पी-4/2 से 4/6, साइट बी, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया,

सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, यू.पी.-201306

फोन: +91-120-2569323 फैक्स: +91-120-2569131

ईमेलः investors@pgel.in वेबसाइटः www.pgel.in

18वीं वार्षिक आम बैठक विश्वियों कॉन्फ्रेंस सुविधा (वीसी) के माध्यम से

आयोजित की जाएगी। शेयरघारक नोट करें कि एमसीए परिपत्र दिनांक 5 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र

दिनांक 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 और सेबी परिपन्न दिनांक 12 मई, 2020

(संयुक्त रूप से "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में बैठक की सूचना में

निर्घारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 29 सितम्बर, 2020 को प्रातः 11.00 बजे विक्रियो कॉन्फ्रेंस सुविधा (वीसी) के

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वितीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और

एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयर-धारकों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। डिमेटिरियलाइण्ड

प्रारूप में शेयर घारण करने वाले शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी

प्रतिभागी के माध्यम से संगत डिपोंजिटरीज के पास अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल

नम्बर पंजीकृत कराएं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाल शेयरधारकों से अनुरोध है

कि वे अपना ई-मेल पता एवं मोबाइल नम्बर कंपनी के रजिस्टार एवं शेयर टांसफर

एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिन) को ई-मेल einward.ris@kfintech.com

के माध्यम से पंजीकृत कराएं। 18वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2019-20

के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pgel.in, और स्टॉक एक्सचेंज

वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा केफिन की वेबसाइट

सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित

व्यवसाय पर रिमोटली अपना वोट देने का अवसर होगा। डिमेटिरियलाइण्ड प्रारूप,

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपना

ई-मेल पता एवं मोबाइल नम्बर पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोटली वोटिंग की

18वीं एजीएम की सूचना लागू नियमों के अनुपालन में उचित समय पर शेयरधारकों को

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

(CIN: L51909DL1984PLC019485)

Regd. Office-9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi-110006

Tel. No.-011-23517516-19, Email Id-cs@neccgroup.com

Website- www.neccgroup.com

NOTICE

In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs

(MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8,

2020 & circular dated April, 13th 2020 permitted the holding of AGM through

Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with

these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the

upcoming AGM of the Company will be held on September 29, 2020 at 11.00

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for

the FY 2019-2020 has to be sent only by electronic mode to those Members

whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The

Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its

If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of

AGM along with Annual Report for the FY 2019-2020 and login details for e-

voting shall be sent to your registered email address. In case you have not

registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below

instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for the FY

Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the

विश्वास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

पंजीकृत कार्यालय : पलैट -1106, 11वी मॉजिल पदमा टॉवर-1 राजेंद्र फ्लेस नई दिल्ली - 110008 CIN: L65921DL1983PLC016382,

सूचना एतदहारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 36वी वार्षिक आम वंतक (एजीएम) शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 को प्रात : 9:00 बजे आउटसाईट इट्रीट मोटल/रिजॉर्ट, अलीपुर, मेन जी.टी. रोड, निवर पल्ला मोड, दिल्ली एजीएम की सुबना में निर्धारित कामकाज का निष्पादन

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटी। डिपॉजिटर्री लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपल**≈** कराई गई 'रिमोट ई-वोटिंग'' के मध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम में सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की एविधा प्रदान की जाती है और ऐसी वोटिंग के माध्यम र्ने सभी कामकाज निष्पादित किये जा सकता है।

कथित सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्च और निर्देशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण से शामिल वार्षिक रिपोर्ट 01 सितम्बर, 2020 को सभी सदस्यों व पंजीकृत पते या ई-मेल आईडी पर भेज दी गई : ये कम्पनी की वेबसाइट www.vishvasprojects.com पर भी उपलब्ध तथा एजीएम की सूधना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं रिमोट ई-बोटिंग अवधि 23 सितम्बर, 2020

(प्रात : 9.00 बजो) प्रोरंभ होगी और 25

सितम्बर, 2020 (सार्व 5.00 बजे) बंद होगी इस अवधि के दौरान सदस्यगण अपना वोट डलेक्टॉनिव रूप से दे सकते हैं। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉडयूल हटा लिया जाएगा। शुक्रवार 25 सितम्बर, 2019 को (साय 5.00) वर्ष व्यवसाय घंटों की समाप्ति के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अवधि 19 सितम्बर, 2020 (कट-ऑफ तिथि को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में जनव द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपातिकें होगा। कोई भी व्यक्ति जो कर-ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में मतदान द्वारा एजीएम् की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना बोट देने के लिए योग्य है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करत है और एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कम्पर्न का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम म बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग के माध्यम से एजीएम क सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने व लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति evoting@nsdl.co.in फ अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी एवँ पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदापि, यदि सदस्य पहले से ही रनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट -वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए अपने वर्तमान युजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से बोट देने की विधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपरिधत होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग बं माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएम में अपना वोट देने के पात्र होंगे। रिमोट -वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी। ई-वोटिंग पर किसी भी पछताछ के लिए वेबसाइट

www.evoting.nsdl.com पर हेल्प सैक्शन के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और वीटिंग मैनुअले का अवलोकन कर सकते हैं य ई–मेल : evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं या एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री न 1800222990 पर सम्पर्क कर सकते हैं **मैसर्स लिंक** इनटाईम इंडिया प्राईवेट सिमिटेड कंपनी सकते है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लि

कम्पनी की वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेत् कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफ बुक 22 सितम्बर, 2020 से 25 सितम्बर 2020 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का हकदार व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना वोट दें सकता बशर्ते कि सभी प्राक्ती के लिए निर्धारित प्रारूप / बैठक उपस्थित होने एवं वीट देने के लिए व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित प्रॉक्सी फार्म बैठक से 48 घंटे प्र कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया गया के लिए और बोर्ड की

विश्वास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के रूप में जाना जाता किशोर प्रसाद गुप्ता दिनांक : 03.09.2020 स्थान : नई दिल्ली

कृते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड

हस्ता/-

संचय दुवे

कंपनी सचिव

PG

Place: New Delhi

तिथि: 04.09.2020

CIN: L74899DL1986PLC023530 Regd off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001 Phone:- 011-23354802 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED

Notice is hereby given that pursuant to Reg. 29 of SEBI Listing Regulations 2015, (LODR), we are pleased to inform you that a meeting of the Board of Directors will be held on Thursday, 10th September, 2020 at 12:00 p.m at the registered office of the Company for considering the Unaudited Financial Results for the First quarter ended 30th June, 2020.

For R R Financial Consultants Limited

Rajat Prasad Dated: 03rd September, 2020 Managing Director

विश्वास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (पूर्व में नेफकॉम एग्रो इंडस्ट्रीज लिनिटेड के रूप में जाना जाता है) पंजीकृत कार्यालय : पलैट -1106, 11वी मंजिल पदमा टॉवर-1 राजेंद्र फोस नई दिल्ली - 110008 CIN: L65921DL1983PLC016382, इंमेल आई डी : mefcomagro2007@yahoo.com एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सुबी (सूचीकरण एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 201 के विनियम 47(1)(क) के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 11 सितम्बर, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अनुमोदन किया जाएगा। कथित सचना एवं विलीय परिणामों की प्रति कम्पनी

की वेबसाइट www.vishvasprojects.com और स्टॉक एक्सचें ज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी कृते विश्वास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड मेफकॉम एग्री इंडरेट्रीज लिमिटेर के रूप में जाना जाता है हस्ता/ किशोरी प्रसाद गुप्ता निर्देशक दिनांक : 03.09.2020 स्थान : नई दिल्ली

इण्डिया शेल्टर

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट सं. 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002 शाखा कार्यालय: केनरा बैंक के ऊपर, तीसरी मंजिल, सामने बैंक बंगला, निकट बस स्टैण्ड, अजमेर रोड, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर-305801

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कॉर्पोरेशन लि. का वर्तमान में अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कर्जदार तथा साथ ही सम्पत्ति/प्रतिभति के स्वामी से नीचे लिखित खातों के सम्मख अंकित तिथि पर राशि का पनर्भगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना निर्गत की थी। जबकि सम्पत्ति के स्वामी एवं अन्य राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहे हैं अत निम्नलिखित कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर प्रत्येक खाते के सम्मख अंकित तिथियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। अब, विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों से कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज लागतों आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के प्रभार का विषय होगा

क्र.सं.	कर्जदार/जमानती (सम्पत्ति के	प्रभारित∕बंधककृत सम्पत्ति का विवरण (निर्मित सम्पत्ति	माँग सूचना की तिथि,	भौतिक कब्जा
	स्वामी) का नाम तथा ऋण	का सम्पूर्ण भाग)	माँग सूचना की तिथि तक	की तिथि
	खाता संख्या	.	बकाया राशि	
1	सिमरन देवी पत्नी पुखराज	आवासीय सम्पत्ति भूमि प्लॉट सं. 20, का सम्पूर्ण भाग, खसरा	माँग सूचना 10.04.2019	31.08.2020
	डाबरिया दोनों निवासी वार्ड सं.	नं. 236, राज विहार कॉलोनी, मदनगंज, तहसील-किशनगढ़	30.04.2019 तक रु.	
		एवं जिला अजमेर, राजस्थान के भाग पर स्थित, माप 213.88		
	बालाजी मन्दिर, मदनगंज,	वर्ग गज, सीमाएँ : पूर्व : अंगिरा नगर कॉलोनी, पश्चिम प्लॉट	तेरह हजार पाँच सौ छियासी	
	किशनगढ़, जिला अजमेर,	सं. 20-ए का शेष भाग, उत्तर : सड़क एवं प्लॉट सं. 20, दक्षिण	मात्र) तथा 01.05.2019 से	
	राजस्थान-305801,	ः प्लॉट सं. 19	ब्याज एवं अन्य प्रभार तथा	
	ऋण खाता सं.		भुगतान की तिथि तक लागत।	
	HLF800000019			
स्थानः	किशनगढ	कते इ	ण्डिया शेल्टर कॉर्पोरेशन	फाइनेंस लि

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें: श्री मुकेश राज जांगिड़ (+91 9950959994) तथा श्री अजय गुप्ता (+91 7906826375 एवं 0124-4131812

आई ओ सिस्टम लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय: ग्लोबल नॉलेज पार्क, 19ए एवं 19बी, सेक्टर-125, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश) CIN: L65921UP1987PLC008764, वेबसाईट: www.iosystem.co.in 30 जन. 2020 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाखों में) 30.6.2019 को | 31.3.2020 31.3.2020 30.6.2020 को समाप्त पूर्व वर्ष में समाप्त को समाप्त को समाप्त ३ पूर्व 3 महीने तत्स्थानीय 3 महीने महीने (अनंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अनंकेक्षित) परिचालनों से कुल आय 501.67 501.67 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों रं 480.09 (24.00) 396.83 (16.66)396.83 कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधार (16.66) 480.09 (24.00) कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधार (24.00) 396.83 480.09 (16.66) मदों के बाद#) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य (16.66) 480.09 (24.00) 396.83 व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल) 1690.00 1690.00 1690.00 1690.00 (1968.53) आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए गए पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों (1985.19) आय प्रति शेयर (10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (0.10)2.84 (0.14)2.35 2. तरल : (0.10)2.84 (0.14)2.35

टिप्पणी

1. उपरोक्त अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 2 सितम्बर, 2020 को आयोजित उनर्क बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कर अभिलेख में लिये गये। सांविधिक लेखा-परीक्षक ने सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत वांछित रूप में उक्त परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व और उद्घाटन अपेक्षा) 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमार्ह वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.iosystem.co.in पर उपलब्ध है।

आई ओ सिस्टम लिमिटेड के लिये

(कमलापति कश्यप) निदेशक DIN: 02359002



स्थानः नोएडा

तिथि: 2.9.2020

बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम) पंजीकृत कार्यालय : 21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001

सीआईएन : L15492WB1924GOI004835 फोन: 033 22225329, 033 22225313 ई-मेल : bhavsar.k@balmerlawrie.com, sen.k@balmerlawrie.com वेबसाइट : www.balmerlawrie.com

103वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तथा ई-वोटिंग सं सुचना की सुचना

एजीएम बलाने की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 एवं कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी अन्य प्रयोज्य परिपत्रों (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' सन्दर्भित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत अनुषंगी नियमों एवं भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति के बिना ही बामर लॉरी एण्ड कं. लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 103वीं वार्षिक आम बैठक टू-वे वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को 12.00 बजे दोपहर भा.मा.स. पर आयोजित की जायेगी।

कथित एमसीए परिपत्रों एवं सेबी परिपत्र के अनुपालन में एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 2 सितम्बर, 2020 को उन सदस्यों के पास भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल आईडी कट-ऑफ तिथि तक कम्पनी/डिपॉजिटर्र भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं और यह कम्पनी की वेबसाइट https://www.balmerlawrie.com/pages/annualreport तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाइटों, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे और यह सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) (वीसी/ओएवीएम एवं ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट https://www.nsdl.co.in/ पर भी उपलब्ध है। सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट को कोई भौतिक प्रति किसी सदस्य के पास नहीं भेजी जायेगी।

कम्पनी एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित संकल्पों पर मतदान करने हेतु अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों (''ई–वोटिंग'') से मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। सदस्य यहाँ नीचे उल्लिखित तिथियों पर एनएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए रिमोट ढंग से अपना मतदान (''रिमोट ई–वोटिंग'') कर सकते हैं और जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं। एजीएम में शामिल होने तथा ई–वोटिंग से सम्बन्धित निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निम्नलिखित मतदान अविध के दौरान उपलब्ध रहेगी : ई-वोटिंग प्रारम्भ होने की तिथि : **सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा**.

रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि : बहस्पितवार, 24 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे सायं

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 (दिन की समाप्ति) तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में पंजीकृत है केवल वे रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई–वोटिंग की अनुमित नहीं होगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। कट-ऑफ तिथि 18 सितम्बर, 2020 (दिन की समाप्ति) तक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपना मतदान इलेक्टॉनिक रूप से कर सकते हैं।

कोई सदस्य जो सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि 18 सितम्बर, 2020 (दिन की समाप्ति) तक शेयर धारण करता है वह ${
m evoting} @{
m nsdl.co.in}$ पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह मतदान के लिए अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड

सम्पर्क विवरण : यदि रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित कोई पूछताछ/शिकायत है तो सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट के डाउनलोड खण्ड के तहत उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों हेतु रिमोट ई-वोटिंग यूजर मैनुअल क सन्दर्भ ले सकता है अथवा सम्पर्क करें : श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबन्धक/सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबन्धक एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, लोअर परेल, मुम्बई-400013, दूरभाष नं..022- 24994360 / 022-24994545 अथवा निःशुल्क नं.

सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 से शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।

सदस्यों की घोषणा के उपरान्त वित्त वर्ष 2019-20 हेत् लाभांश ऐसी घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर वैधानिक समय सीमा में उन शेयरधारकों को प्रदान किये जायेंगे जो 18 सितम्बर, 2020 (दिन की समाप्ति) तक कम्पनी के शेयर धारण करते हैं।

स्थान : कोलकाता

Mamta Bisht

कविता भावसार कम्पनी सचिव

श्री गंग इण्डस्ट्रीज़ एण्ड ऐलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड

CIN: L01112UP1989PLC011004 पंजी. कार्याः ए–26, यूपीएसआईडीसी इंड्रस्टियल एरिया सिकन्दाराबाद, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश–203205 ई—मेलः secretarial@shrigangindustries.com, वेबसाइटः www.shrigangindustries.com

30 जन 2020 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार (रू. लाखों में) 31.03.2020 30.06.2019 30.06.2020 क्र. सं. को समाप्त तिमाही को समाप्त तिमाही को समाप्त वर्ष (अनअंकेक्षित) (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) 1.74 28.03 सामान्य संचालनों से शुद्ध लाभ / (हानि) (कर पूर्व, असाधारण (103.38)(361.34)(84.01) और / या असाधारण मर्दे) कर पूर्व शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण (103.38)(361.34)(84.01) अवधि के लिए कर पश्चात शृद्ध लाभ / (हानि) (103.38)(361.34)(84.01) इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य 10 / -रू प्रत्येक) 793.00 793.00 793.00 रिजर्व (गत वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाए गए अनुसार 0.00 0.00 0.00 पुनर्मुल्यांकित रिजर्व को छोडकर) अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों से पश्चात) (प्रत्येक 10/-रु) (जारी और बंद संचालनों के लिए) (क) बेसिक (ख) डायल्यूटेड (*) गैर वार्षिक (1.30)*(4.56) $(1.06)^*$

टेप्पणीः

दिनांकः 02 सितंबर, 2020

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा 02.09.2020 को हुई उनकी बैठक में की गई और बाद में निदेषक मंडल द्वारा 02.09.2020 को हुई उनकी बैठक में अनुमोदित की गई।

2. ये परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित प्रासंगिक नियमों के तहत जारी किए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

 वर्तमान में कम्पनी केवल एक सेग्मेंट में काम करती है—वनस्पति और रिफाइन्ड तेल। कम्पनी आईएमएफएल देशी शराब के लिए डिस्टीलरी और बोटलिंग प्लान्ट, सन्डीला, जिला-हरदोई, उ.प्र. में स्थापित कर रही है जो कार्यान्वयन में है।

4. मौजूदा तिमाही के दौरान कम्पनी के वनस्पती / रिफाइन्ड तेल मे कोई उत्पादन नहीं हुआ है। विश्व स्तर पर और भारत में कोरोनावायरस (कोविद –19) महामारी का प्रकोप और इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा तालाबंदी

के परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा सैंडिला, हरदोई, में आईएमएफएल के निर्माण के लिए स्थापित की जा रही बॉटलिंग यूनिट के चालू होने में लगभग 3 महीने देरी हुई है। पिछले वर्षों के आंकडों को वर्तमान अविध के तुलनीय बनाने के लिए पनः व्यवस्थित किए गए हैं।

> बोर्ड की आज्ञानुसार श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड ऐलाइड प्रोडक्ट्स

स्थानः नई दिल्ली

लिमिटेड सैयद अजिजूर रहमान, पूर्णकालिक निर्देशक

मिंडा फाइनांस लिमिटेड

CIN: L67120DL1985PLC021349 पंजी. कार्यालयः बी-64/1, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052

फोन: 011-49373931, ई-मेल: lalitk@mindagroup.com, वेबसाईट: www.mindafinance.co.in

मिंडा फाइनांस लिमिटेड ('कम्पनी') की 35वीं वार्षिक साधारण सभा

('एजीएम') के विषय में सचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले सभी प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') तथा सेबी द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर नं. 14/2020 तिथि 08 अप्रैल, 2020, साधारण सर्क्युलर सं. 17/2020 तिथि 13 अप्रैल, 2020 तथा साधारण सर्क्युलर नं. 20/2020 तिथि १ मई, 2020 तथा लागू होने वाले सभी सर्क्युलर्स (सामूंहिक रूप से ''संबंधित सर्क्युलर्स'' वर्णित) के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (''सेबी'' सचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनपालन में एजीएम के आमंत्रण की सचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये कम्पनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30 सितम्बर, 2020 को 12.00 बजे दोपहर में विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो-विजअल माध्यमी (''ओएवीएम'') द्वारा आयोजित की जायेगी। सदस्यगण बीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिये सक्षम होंगे। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कोरम सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी।

संबंधित सर्क्युलर्स के अनुपालन में एजीएम की सुचना तथा बोर्ड के रिपोर्ट, ऑडिटर के रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किये जाने वाले अन्य वांछित दस्तावेजों के साथ वित्त वर्ष 2019-20 के स्टैंडएलॉन एवं समेकित वित्तीय विवरणों को कम्पनी के उन सदस्यों को भेजा जायेगा जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत होंगे। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाईट www.mindafinance.com तथा क्रमशः स्टॉक एक्सचैंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईटः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते अद्यतन नहीं कराये हैं, से अनुरोध है कि फोलियो नम्बर, नाम तथा सदस्य का पता का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा किसी अन्य दस्तावेजों (जैसे डाइविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पास्पोर्ट) की स्वतः सत्यापित प्रति, सदस्य के पते के समर्थन में, के साथ laltik@mindagroup.com पर कम्पनी को लिखकर अपने ईमेल पता को अद्यतन कराऐं। डीमैटेरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन कराऐं। ई–मेल पते के पंजीकरण से संबंधित किसी प्रश्न/कठिनाई के लिये सदस्य laltik@mindagroup.com पर लिख सकते हैं।

वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने की प्रक्रियाः

i) सदस्यों को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लिकेशन के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। सदस्यगण सूचना में उपलब्ध लिंक पर उसे एक्सेस कर सकते हैं। कपया ध्यान रहे कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिये यजर आईडी तथा पास्वर्ड नहीं होगा तथा जो यजर आईडी तथा पास्वर्ड भूल गये हों, वे सूचना में वर्णित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का अनुसरण कर उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं।

. सदस्यगण सचना में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण कर सभा आरंभ होने की निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व तथा पश्चात वीसी/ ओएवीएम पद्धति से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ आधार पर 100 सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा अधिक की शेयरधारिता के धारक शेयरधारक, प्रवर्त्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधन कर्मी, ऑडिट, नॉमिनेशनल तथा पारिश्रमिक समित तथा स्टॉक होल्डर्स रिलेशनशिप समिति के अध्यक्ष, ऑडिटर्स आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ पहले पाओ आधार के कारण प्रतिबंध के बिना एजीएम में शामिल होने की अनुमित है।

iii. जिन सदस्यों को एजीएम के पूर्व या उसके दौरान सहायता/तकनीकी सहयोग की जरुरत हो, वे श्री ललित खुबचंदानी, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी से +91-8285554847 पर सम्पर्क करें या laltik@mindagroup.com पर मेल करें या हमारे आई.टी.कर्मी श्री पृष्पेन्दर भारद्वाज से +91-9958050362 पर सम्पर्क करें या pkbhardwaj@mindagroup.com पर मेल करें।

iv. संस्थागत सदस्यों को वीसी/ ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने तथा मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यदि संस्थागत सदस्यों को एजीएम में शामिल होने में समस्या हो तो वे laltik@mindagroup.com पर लिखें।

v. किसी भी प्रकार की कनैक्टिविलटी समस्या से निजात पाने के लिये स्टैबल वाई–फाई अथवा एलएएन कनैक्शन के उपयोग की सलाह दी जाती है। vi. वीसी/ ओएवीएम के द्वारा एजीएम में शामिल होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जायेगी।

5. सदस्यों से अनरोध है कि एजीएम की सचना में निर्दिष्ट सभी टिप्पणियों तथा विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने, रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के तरीके के निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

> बोर्ड के आदेश से मिंडा फाइनांस लिमिटेड के लिये

स्थानः दिल्ली तिथि: 2 सितम्बर, 2020

ललित खुब चन्दानी कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

MOHINDRA FASTENERS LIMITED

Regd. Office: 304 Gupta Arcade, Inder Enclave, Delhi - Rohtak Road, New Delhi-110087

Website: www.mohindra.asia, Email id: cs@mohindra.asia, Phone: +91-11- 46200400, 46200401 Fax: +91-11-46200444 NOTICE OF THE 26[™]ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & E-VOTING AND

BOOK CLOSURE INFORMATION

CIN: L74899DL1995PLC064215

Notice is hereby given that: The 26thAnnual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Tuesday, 29"September, 2020 at 11:30 A.M. through Video Conferencing 'VC'/ Other Audio Visual Means 'OAVM' to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM, without physical presence of the members at a common venue, in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and Listing Regulations, 2015 read with MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020 and the

SEBI Circular dated May 12, 2020 2. In compliance with the MCA & SEBI Circulars, the Electronic Copies of Notice of the AGM along with Annual Report for 2019-20 have been sent to the members whose email addresses are registered with the Company/Depositories/Share Transfe Agent. Members of the Company holding shares either in physical form or in Dematerialized forms as on Benpose date i.e. Friday 28th August, 2020 have been received the Annual Report along with notice of 26th AGM for the financial year 2019-20 through email only. The same is also available on the website of the Company at www.mohindra.asia, website of the Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.msei.in and website of the NSDL www.evoting.nsdl.com. The members can attend and participate at the ensuing AGM through VC/OAVM on the virtual platform provided by RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limited and the instructions to participate/ioin the AGM and the manner of casting the votes through Remote E-voting and Voting during the AGM will be

provided in the Notice. Members are requested to kindly view the same. Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rules made thereunder and subsequent amendments thereto and SEBI(LODR) Regulations, 2015, all the Members are hereby informed that a person whose name is registered as member and are holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date Tuesday, September 22, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the AGM or vote through e-voting system available during the AGM on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities

Depository Limited (NSDL). Members may note the following information: Date of completion of sending of Annual Report to the September 03, 2020 (Thursday) members including the Notice of AGM through email only

The Cut-off date & Record date for determining the September 22, 2020 (Tuesday) eligibility of the members to vote electronically and for final dividend if any declared at the 26" AGM. Date and time of commencement of remote e-voting From 09:00 A.M. September 24, 2020 (Thursday) Date and time of end of remote e-voting Upto 05:00 P.M. September 28, 2020 (Monday)

4. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the above mentioned date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have casted their vote by remote e-voting may also attend the AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system

5. Members who have acquired shares and becomes a member of the Company after sending of the Notice and the Annual Report through electronic mode and holding shares as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2020(Tuesday), may obtain the Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in , compliances@skylinerta.com_by mentioning their folio no./Dp id & Client id. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting

The Company has appointed Mr. Anand Kumar Singh, Partner of M/s Anand Nimesh & Associates, Practicing Company Secretaries as a Scrutinizer to scrutinize the process of remote e-voting or e-voting during the AGM in

In case of any queries related to remote e-voting / e-voting, the members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact Pallavi Mhatre, Manager NSDL, 4" Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Email address: pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in, toll free no.: 1800-222-990 or to Company Secretary of the company at 304 Gupta Arcade, Inder Enclave Delhi-Rohtak Road, New Delhi-110087, contact at 011-46200400 or email address: cs@mohindra.asia or to Company's RTA i.e. Skyline Financial Services Private Limitedat +91- 11-40450193-97 or email address: compliances@skylinerta.com.

8. NOTICE IS FURTHER given pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share Transfer Books will remain closed from Wednesday, September23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (both days Inclusive) for the 26"AGM of the Company.

> By order of the Board For Mohindra Fasteners Limited

Date: 03.09.2020

Place: New Delhi

Nidhi Pathak Company Secretary & Compliance Officer

www.readwhere.com

Date: 04.09.2020

Holding Company, MAS Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank details with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd floor, Okhla Industrial

Area phase-II, New Delhi 110020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.) PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 05/09/2020

Please contact your Depositary Participant (DP) and register Holding your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend

payment by NACH if declare by company. PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 05/09/2020

The Notice of AGM and Annual Report for the FY 2019-2020 will also be

available on Company's website at www.neccgroup.com and website of BSE at www.bseindia.com and NSE at www.nseindia.com. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum

under Section 103 of the Companies Act, 2013. For North Eastern Carrying Corporation Limited Place : Delhi

Company Secretary & Compliance Officer

कोई सदस्य रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान के उपरान्त भी एजीएम में शामिल हो सकता है किन्तु उसे बैठक में पुनः मतदान की अनुमति नहीं होगी का उपयोग कर सकता है।

1800-222-990 अथवा ई-मेल आईडी : evoting@nsdl.co.in.

श्री मोहन राम गोयनका, पूर्णकालिक कम्पनी सचिव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से मतदान प्रक्रिया संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है। कते बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड

तिथि : 2 सितम्बर, 2020 एफ-4767